



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1146 राँची, शुक्रवार,

21 दिसम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

20 दिसम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-15/2017 का.-2911 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री विनोद राम, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-राँची), अंचल अधिकारी, पांकी, पलामू के विरुद्ध ग्राम सगालीम के खाता सं०-82, प्लॉट नं०-966, रकबा 5.00 एकड़ भूमि पर अवस्थित 22 (बाईस) वृक्षों के पातन का आदेश देकर झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2004 का उल्लंघन करने तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण करने संबंधित आरोप, जैसा कि उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-760/रा०, दिनांक 18 अप्रैल, 2017 द्वारा संलग्न प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री राम के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री राम को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. श्री राम द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं ।

5. श्री राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु वन क्षेत्र पदाधिकारी, कुन्दरी वन क्षेत्र, मेदिनीनगर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

| Sr No. | Employee Name G.P.F. No. | Decision of the Competent authority |
|--------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | VINOD RAM 20080400065 | श्री विनोद राम, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-राँची), अंचल अधिकारी, पांकी, पलामू के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है । |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
